

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने माई मेन स्ट्रीट के साथ साझेदारी के द्वारा छह मेन स्ट्रीट क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए 945 हजार डॉलर का निवेश सुरक्षित किया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (24 जनवरी, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को, [माई मेन स्ट्रीट लोकल बिजनेस अक्सलरेटर प्रोग्राम \(My Main Street Local Business Accelerator program\)](#) के द्वारा 945,000 डॉलर के गैर-मुड़ने योग्य योगदान की मंजूरी दी गई। यह फंड, ब्रैम्पटन में छह मेन स्ट्रीट कम्युनिटीज: डाउनटाउन (Downtown), माउंट प्लेज़ेंट (Mount Pleasant), अपटाउन (Uptown), कैनेडी रोड (Kennedy Road) (ओरेंडा कोर्ट (Orenda Court) से ग्लिडन रोड (Glidden Road) के दक्षिण तक), ब्रैमली गो (Bramalea GO) और क्वीन स्ट्रीट (Queen Street) (सेंटर स्ट्रीट (Centre Street) से 410, डिक्सी रोड (410, Dixie Road) से ब्रैमली रोड (Bramalea Road) और टोरब्रैम रोड (Torbram Road) से सी.एन. (CN) रेल लाइन) के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए है।

इन छह मेन स्ट्रीट कम्युनिटीज को सिटी के इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफिस (Economic Development Office) के अंदर समर्पित मेन स्ट्रीट अंबेसडर (Main Street Ambassador) के द्वारा सहायता दी जाएगी। प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर, इन कम्युनिटीज को, नए और मौजूदा छोटे कारोबारों की हिमायत के लिए, अनुकूलित मार्केट रिसर्च, डेटा विश्लेषण और गैर-मुड़ने योग्य फंडिंग योगदान भी मिलेंगे।

यह प्रोग्राम दो वर्षों तक प्रदान किया जाएगा और यह मेन स्ट्रीट कम्युनिटीज में, निवासियों, नए उद्यमियों और मौजूदा कारोबारियों को आर्थिक अवसर प्रदान करते हुए, जोशीली और भागीदारी वाली लोकल मेन स्ट्रीट्स बनाने और उन्हें कायम रखने पर केंद्रित होगा।

कोविड-19 (COVID-19) महामारी के प्रभावों से बाहर निकलने के लिए, दो प्रोग्राम स्ट्रीम्स के द्वारा साउदरन ओनटैरियो में मेन स्ट्रीट्स और लोकल कारोबारों की बहाली तथा पुनर्निर्माण में सहायता के लिए, एक दो-वर्षीय प्रोग्राम — माई मेन स्ट्रीट (My Main Street) स्थापित करने के लिए, कैनेडियन अर्बन इंस्टीट्यूट (सी.यू.आई.) (Canadian Urban Institute) (CUI) और इकोनॉमिक डिवेलपर्स काउंसिल ऑफ ओनटैरियो (ई.डी.सी.ओ.) (Economic Developers Council of Ontario) (EDCO) को, कैनेडा सरकार (Government of Canada), [फेडरल इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एजेंसी फॉर साउदरन ओनटैरियो ने 23.25-मिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की \(Federal Economic Development Agency for Southern Ontario \(FedDev Ontario\) के, announced a \\$23.25-million investment\)](#)।

ई.डी.सी.ओ. (EDCO), माई मेन स्ट्रीट लोकल बिजनेस अक्सलरेटर प्रोग्राम स्ट्रीम प्रदान कर रही है, जो 65 मेन स्ट्रीट कम्युनिटीज के पुनर्निर्माण की हिमायत करती है और पूरे साउदरन ओनटैरियो में 650 से अधिक लोकल कारोबारों को गैर-मुड़ने योग्य योगदान प्रदान करती है।

प्रोग्राम के विवरणों तथा अधिक जानकारी के लिए, www.mymainstreet.ca पर जाएं या ब्रैम्पटन एंटरप्रीनियर सेंटर (Brampton Entrepreneur Centre) को Bec@brampton.ca पर संपर्क करें।

हवाले

“ब्रैम्पटन अवसरों का शहर है और हम हमारे लोकल कारोबारों की हिमायत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं क्योंकि हम इकट्ठे मिलकर, कोविड-19 महामारी के प्रभावों से बाहर निकलने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार के सभी विभागों और कम्युनिटी साझेदारों के साथ इकट्ठे मिलकर काम करना, इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। हम, माई मेन स्ट्रीट लोकल बिजनेस अक्सलरेटर प्रोग्राम के द्वारा, हमारे पूरे शहर की छह कम्युनिटीज के लिए 945,000 डॉलर मिलने पर शुक्रगुजार हैं। यह फंड, लोकल कारोबार की हिमायत करने और हमारे शानदार शहर में मार्किट संबंधी अवसरों को बढ़ाने में हमारी मदद करेगा।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“मेन स्ट्रीट कम्युनिटीज, सिटी की अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाती हैं और अक्सर यहीं पर कम्युनिटी निर्माण और रिश्ते विकसित होते हैं। हम FedDev ओनोटैरियो में हमारे साझेदारों के द्वारा इस बड़े निवेश के लिए उनके शुक्रगुजार हैं और उन आर्थिक अवसरों का अनुभव करने के लिए उत्साहित हैं, जो यह ब्रैम्पटन की इन छह मेन स्ट्रीट कम्युनिटीज के, हमारे निवासियों, नए उद्यमियों और मौजूदा कारोबारियों के लिए लाएगा।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वाइर्स 3 और 4; चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन के लिए माई मेन स्ट्रीट का 945,000 डॉलर का योगदान, यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि हमारी मेन स्ट्रीट्स विकसित हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, जब हम कोविड-19 महामारी के प्रभावों से बाहर निकलकर आगे बढ़ रहे हैं। ये छह कम्युनिटीज, हमारे शहर की अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य हैं और उन्हें बढ़े हुए अवसर प्रदान करने से, हमारे संपूर्ण शहर को लाभ होगा।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वाइर्स 1 और 5; वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी में, हम पर्याप्त लोकल निवेश और साझेदारियों के द्वारा, पूरे ब्रैम्पटन में निवासियों और कारोबारियों के लिए अवसर प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। माई मेन स्ट्रीट लोकल बिजनेस अक्सलरेटर प्रोग्राम का योगदान, हमारी कम्युनिटी में निवेश लाएगा और हमारे शहर की वृद्धि और विकास में सहायता करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे शहर के पास आगे बढ़ने के लिए सभी आवश्यक साधन हैं, हम हमारे साझेदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे।”

- डेविड बैरिक् (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“कैनेडा सरकार उन चुनौतियों को समझती है, जो महामारी के परिणामस्वरूप मेन स्ट्रीट के कारोबारियों के समक्ष आ रही हैं और हम इस तनाव को दूर करने में मदद के लिए काम कर रहे हैं। माई मेन स्ट्रीट जैसे प्रोग्राम लोकल कारोबारियों के लिए जरूरी फंडिंग और सेवाएं पेश करते हैं क्योंकि वे नए और भागीदारी वाले आर्थिक अवसर ग्रहण करने और पैदा करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, जो उनकी मेन स्ट्रीट्स के लिए जोशीलेपन के पुनर्निर्माण और बहाली में उनकी मदद करेंगे।”

- माननीय हेलेना जाजेक (Helena Jaczek), मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेडरल इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एंजेंसी फॉर साउदरन ओनोटैरियो

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca